

ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಅಮಿಟೆಡ್

(ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯಮ)

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ :

2ನೇ ವಿಭಾಗ, ಕೋರಮಂಗಲ

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 034.

ದೂರವಾಣಿ : 080-25531461-70 ರಿಂದ 20

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-25532153-5941

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : www.kioclltd.in

के आई ओ सी एल लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय :

II ब्लॉक, कोरमंगला,

बेंगलूर - 560 034.

कार्यालय : 080-25531461-70

फैक्स : 080-25532153-5941

वेबसाइट : www.kioclltd.in

KIOCL LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Registered Office :

II Block, Koramangala.

Bangalore - 560 034.

Telephone : 080-25531461-70

Fax : 080-25532153-5941

Website : www.kioclltd.in

CIN : L13100KA1976PLC002974



ISO 9001, 14001 ಮತ್ತು
ಓಹೆಸ್‌ಎಸ್‌18001 ಸಂಸ್ಥೆ
आई एस ओ 9001, 14001 तथा
ओएचएसएस 18001 कम्पनी
ISO 9001, 14001 &
OHSAS 18001 COMPANY

No. S/BC/1 (18-5)/2020/647

December 19, 2020

National Stock Exchange of India Limited Symbol: KIOCL Through: NEAPS
BSE Limited Scrip Code: 540680, Abbreviated Name: KIOCL Through: BSE Listing Centre
Metropolitan Stock Exchange of India Limited Symbol: KIOCL Through: mylisting

Dear Sir/Madam,

**Sub.: Regulation 24(vi) of SEBI (Buy-Back of Securities), Regulations, 2018-
Post Buyback Public Announcement**

Pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, **KIOCL Limited** ("Company") has made a post buyback public announcement dated December 18, 2020 ("**Post Buyback Public Announcement**") for the Buyback of 1,41,74,469 (One Crore Forty One Lakh Seventy Four Thousand Four Hundred Sixty Nine) fully paid-up equity shares of the Company of face value of Rs.10 each at a price of Rs. 110 (Rupees One Hundred Ten Only) per equity share on a proportionate basis from the equity shareholders of the Company, through the tender offer route.

The Post Buyback Public Announcement has been published on December 19, 2020 in the following newspapers:

Publication	Language	Editions
Business Standard	English	All
Business Standard	Hindi	All
Vartha Bharti	Kannada	Bengaluru

A copy of the Post Buyback Public Announcement is enclosed for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For KIOCL Limited,

(Signature)

(P.K. Mishra)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: as above

ಪರಿಸರ-ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಪಾರಿಸ್ಥಿತಿಕಿ-हमारा लक्ष्य हमारी निष्ठा ECOLOGY-OUR MISSION OUR OBSESSION

f <https://www.facebook.com/kioclltd> t <https://www.twitter.com/cmdkiocl>

Small steel producers lag in scaling up production

ISHITA AVAN DUTT
Kolkata, 18 December

It's not just elevated iron ore prices and an uptick in demand that's driving steel prices, but there is also a decline in availability because of the challenges faced by smaller steel producers.

Though demand has picked up and the market is buoyant, smaller steel producers — most of which are secondary — have not been able to scale up production. The iron ore shortage and the sharp rise in input costs over the past few months are among the reasons.

A secondary producer explained: "Iron ore prices have skyrocketed over the past month. My stocks have come down to 30 days, against a normal level of 60 days; margins have dropped from 8-9 per cent to 1-2 per cent."

Iron ore prices have more than doubled in Odisha since end-June due to the shortage, led by mines auction earlier in the year at a huge premium. It has largely made the mines unviable. Of the 19 mines auctioned, only seven have started production.

An ICRA analysis indicated the supply shortage in the current financial year



THE WIDENING GAP

65% share of top 6 steel producers, against 55% earlier

65% capacity utilisation by other players

85% capacity utilisation of top 6 players in Oct; the average was 78% in the past five years

Source: ICRA

could be over 50 million tonne (mt), and the shortage scenario could persist for the next six-nine months, unless new miners were able to quickly ramp-up production.

Smaller steel producers account for about 40 per cent of production; the balance is accounted for by the six major steel producers: Tata Steel, Steel Authority of India (SAIL), Rashtriya Ispat Nigam (RINL), Jindal Steel & Power, JSW Steel and ArcelorMittal Nippon India (AM/NS India). Except for RINL, most players have some level of raw material security.

VR Sharma, JSPL managing director, said there is no shortage in flat steel. "But

long steel is in short supply because secondary producers are unable to produce. This has created a shortage of long products and is one of the factors driving steel prices. The shortage in iron ore and an increase in its prices and other inputs like pellets and scrap are putting pressure on secondary producers," he said.

Prices of steel have had quite a run since the easing of lockdown measures. Domestic hot-rolled coil (HRC) are at a multi-year high of ₹49,000 a tonne; in longs, rebars at more than ₹48,000 a tonne. The increase in steel prices is in line with the international trend. "In China, prices have increased by about \$30 a tonne over the past month," said

Sharma. China is seeing healthy growth in consumption, led by infrastructure. The World Steel Association (WSA) has, in fact, revised its demand growth forecast for China to 8 per cent for CY20, against its previous forecast of 1 per cent in April 2020.

In India, according to the Joint Plant Committee's provisional data, during April-November, production of top six steel producers showed a decline of 18.7 per cent YoY, and that of "others" by 20.9 per cent; consumption was down by 20 per cent.

The provisional data for November, however, showed a decline of 8.3 per cent for "others", while total production was down by 2.4 per cent. Consumption, on the other hand, increased 11.4 per cent.

"This implies that among the top six, most had recorded an increase. With most secondary producers not being able to scale up, there is reduced availability and that, too, is fuelling an increase in prices," a primary producer said.

The ICRA report noted the share of top six steel producers in total crude steel production, which remained at about 55 per cent historically, had risen to 65 per cent in recent months.

P&W's GTF engines complete 2 million flight hours in India

Pratt & Whitney (P&W)-manufactured Geared Turbofan (GTF) engines, which power Airbus A320 NEO family planes being operated by budget carriers IndiGo and GoAir have crossed two million flight hours in India, the US engine maker said on Friday. The two Indian carriers were the early adopters of these fuel-efficient engines with IndiGo inducting its first A320NEO plane in the fleet in March 2016 and GoAir in the same year, in June. There are over 180 Airbus planes with P&W GTF engines in India. PTI

www.bankofbaroda.in

CORRIGENDUM: RECRUITMENT OF DEFENCE BANKING ADVISOR & DEPUTY DEFENCE BANKING ADVISOR ON CONTRACT BASIS

We invite reference to our advertisement dated 19.11.2020, 16.12.2020 & 17.12.2020. Further to the same the modified eligibility criteria for Deputy Defence Banking Advisor is as under:

Sl. No.	Position	Age
1	Deputy Defence Banking Advisor	Maximum Age: 60 Years

Interested candidates are advised to visit the Bank's website www.bankofbaroda.in -> Career Page -> Current Opportunities for further details.

Any Addendum/Corrigendum including modification shall be notified only on Bank's official website.

The last date of submission of the application is 27th December, 2020 (23:59 hours).

Place: Mumbai
Date: 19.12.2020
GENERAL MANAGER - HRM

Apollo Hospitals plans to raise ₹1,500 cr in two months

STANDALONE PERFORMANCE

■ Health care services*
■ Pharmacy** (₹ cr)
Figures in brackets YoY (%)

Q2FY20	Q2FY21
2,463.80	2,414.50 (-2.0)
1,172.70	1,351.90 (15.2)
1,291.20	1,062.60 (-17.7)

* Health care consists of hospitals, hospital-based pharmacies, and consulting
** Inclusive of standalone pharmacy and pharmacy distribution
Source: Apollo Hospitals

TE NARASIMHAN
Chennai, 18 December

Apollo Hospitals Enterprises (AHEL) is planning to raise around ₹1,500 crore in the next two months to support its inorganic growth and strengthen balance sheet and its digital platform.

It's an "indicative figure, not definite", Suneca Reddy, managing director, Apollo Hospitals Group, said. The money, Reddy said, will be deployed in Apollo 24/7, the company's six-month-old digital health platform, and in supporting growth in the hospital business and deleveraging the balance sheet.

"We are also prepared for any bolt on acquisitions that would strengthen our presence in key markets that we have identified," she said. The hospital chain is looking at a few small-ticket acquisitions — 300 beds in larger cities and 200 beds in smaller ones — to expand its presence, mainly in the northern and eastern parts of the country.

Apollo recently signed a definitive share-purchase agreement with IHH, its joint venture partner in Apollo Geneagles Hospital, Kolkata (AGHL), to acquire its existing 50 per cent in AGHL for a cash consideration of ₹410 crore. Meanwhile, Apollo is targeting around ₹10,000 crore revenue from Pharmacy business and plans to add another 1,200 outlets in the next four to five years.

The pharmacy business is one of the main segments that helped Apollo cushion from any big shocks due to the pandemic. The business grew by around 15 per cent to ₹1,351.9 crore during the September quarter from ₹1,172.7 crore a year ago. During the same period, health care services contracted 18 per cent year-on-year led by mature hospitals (25 per cent decline). New hospitals grew 5 per cent YoY.

Both the management and analysts agree with a compound annual growth rate (CAGR) of around 22 per cent over the past five years, and the pharmacy business (43 per cent of FY20 revenues) remains a growth engine for Apollo. Analysts value Apollo's pharmacy business at a little over ₹11,000 crore.



KIOCL LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN: L13100KA1976GOI002974

Registered & Corporate Office: II Block, Koramangala, Bengaluru - 560 034, Karnataka, India
Contact Person: Shri Pushp Kant Mishra, Company Secretary & Compliance Officer
Tel: 080-25531461-70 | Fax: 080-25532153-5941 | Email: cs@kioclltd.com | Website: www.kioclltd.in

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF KIOCL LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated October 20, 2020 and published on October 21, 2020 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated November, 23, 2020 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE ANNOUNCEMENT**
 - KIOCL Limited (the "Company") had announced the Buyback of not exceeding 1,41,74,469 (One Crore Forty One Lakhs Seventy Four Thousand Four Hundred Sixty Nine) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares") from all the existing shareholders / beneficial owners of Equity Shares as on the record date (i.e. Friday, October 30, 2020), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" process at a price of ₹ 110 (Rupees One Hundred Ten Only) per Equity Share payable in cash for an aggregate consideration not exceeding ₹ 155.92 Crore (Rupees One Hundred Fifty Five Crores and Ninety Two Lakhs Only) ("Buyback Offer Size") not exceeding 8.25% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2020 and is within the statutory limits of 10% (Ten Percent) of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves under the Board of Directors approval route as per the provisions of the Companies Act from the equity shareholders of the Company, as on the record date, on a proportionate basis, through the Tender Offer route as prescribed under the Buyback Regulations (hereinafter referred to as the "Buyback"). The maximum number of Equity Shares proposed to be bought back represents 2.28% of the total number of Equity Shares in the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company.
 - The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as provided under Buyback Regulations and circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").
 - The Buyback Offer opened on Tuesday, December 1, 2020 and closed on Monday, December 14, 2020.
- DETAILS OF BUYBACK**
 - The total number of Equity Shares bought back under the Buyback Offer are 1,41,74,469 (One Crore Forty One Lakhs Seventy Four Thousand Four Hundred Sixty Nine) Equity Shares at a price of ₹ 110 (Rupees One Hundred Ten only) per Equity Share.
 - The total amount utilized in the Buyback of Equity Shares is ₹ 155,91,91,590/- (Rupees One Hundred Fifty Five Crore Ninety One Lakh Ninety One Thousand Five Hundred Ninety Only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the Buyback viz. filing fees, stock exchange fees, advisory fees, public announcement publication expenses, brokerage, applicable taxes such as buyback taxes, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc.
 - The Registrar to the Buyback Offer i.e. Integrated Registry Management Services Private Limited (the "Registrar to the Buyback Offer") considered 16 valid bids for 1,41,75,361 (One Crore Forty One Lakh Seventy Five Thousand Three Hundred Sixty One) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 1 times the maximum number of shares proposed to be bought back. The details of valid bids considered by the Registrar to the Buyback Offer are as follows:

Sr. No.	Particulars	No. of Shares available for Buy Back	No. of Valid Bids	Number of Equity Shares Validly Tendered	Number of Equity Shares Accepted	Number of Equity Shares unaccepted / returned	Response (%)
1	Reserved Category	17,21,626	15	892	892	0	0.006%
2	General Category	1,24,52,843	1	1,41,74,469	1,41,73,577	0	99.994%
	TOTAL	1,41,74,469	16	1,41,75,361	1,41,74,469	0	100.00%

 - All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection has been dispatched by the Registrar to respective Eligible Shareholders by Friday, December 18, 2020 (by email where the email id is registered with the Company or the depository).
 - The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") / BSE Limited on Friday, December 18, 2020. Clearing Corporation has made direct funds payment to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction were rejected by Reserve Bank of India/the concerned bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Shareholder/Brokers / custodians for onward transfer to such Eligible shareholders.
 - Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on Friday, December 18, 2020. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders / custodians by the Clearing Corporation / BSE Limited on Friday, December 18, 2020.
 - The extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares accepted under the Buyback in dematerialized form is currently under process and shall be completed by December 28, 2020.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**
 - The capital structure of the Company, pre and post Buyback Offer is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback*	
	No. of Equity Shares	Amount in lakh (₹)	No. of Equity Shares	Amount in lakh (₹)
Authorized share capital	67,50,00,000	67,500.00	67,50,00,000	67,500.00
Issued, subscribed and paid up share capital	62,19,25,565	62,192.56	60,77,51,096	60,775.11

 *Subject to extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares
- The details of the Shareholders / beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of equity shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total equity shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares*
1	President Of India	1,41,73,577	99.99	2.33

 *Subject to extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares
- The shareholding pattern of the Company pre-Buyback (as on Record Date i.e. Friday, October 30, 2020) and post Buyback is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback*	
	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital
Promoters	61,60,51,204	99.06	60,18,77,627	99.03
Foreign Investors (Including Non Resident Indians/ FIs / Foreign Mutual Funds / Foreign Nationals)	99731	0.02		
Financial Institutions / Banks and Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	1854232	0.30	58,73,469	0.97
Other (public, public bodies corporate etc.)	39,20,398	0.63		
Total	62,19,25,565	100.00	60,77,51,096	100.00

 *Subject to extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares

- MANAGER TO THE BUYBACK OFFER**



IDBI Capital Markets & Securities Limited
8th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005
Tel No.: +91 (22) 2217 1700 | Fax No.: +91 (22) 2215 1787
Contact Person: Chandresh Sharma
Email: kioclbuyback2020@idbicapital.com | Website: www.idbicapital.com
SEBI Registration Number: INM000010866 | Validity Period: Permanent
Corporate Identity Number: U65990MH1993GOI075578
- DIRECTORS' RESPONSIBILITY**
As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accept the responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. This Post Buyback Public Announcement is issued under the authority of the Board of Directors by the Buyback Committee through Resolution passed by the Buyback Committee meeting held on December 18, 2020.
For and on behalf of the Board of Directors of KIOCL Limited

Sd/- M V Subba Rao Chairman-cum-Managing Director (DIN: 06495576)	Sd/- Swapan Kumar Goral Director (Finance) (DIN: 07223221)	Sd/- Pushp Kant Mishra Company Secretary (Membership No: ACS 28174)
---	--	---

Place: Bengaluru
Date: December 18, 2020





FORE HEALTHCARE CONCLAVE 2020

Theme: "War on the Virus"
Combating COVID 19 using Digital and Information Technology in the Healthcare System

December 21-23, 2020
Virtual Platform (Cisco-WebEx)

Eminent Speakers

Shri. Lav Agarwal Joint Secretary, MoHFW	Dr. Jitendra Das Director FORE School of Management
Shri. Alok Mukhopadhyay Chairman, VHAII	Shri. Anindo Majumdar Retd. Secretary, Central Vigilance Commission
Shri. Ajay Kumar Sharma Principal Director, Southern Command, Defence Estates	Shri. B. Amol Jagtap Director, Southern Command, Defence Estates
Prof. Ashok Kumar Harnal Center Head - Center for Customer Management and Analytics, FORE School of Management	

Chief Executive Officers of Cantonment Boards

Shri Amit Kumar, CEO, Pune	Shri Ajay Kumar, CEO, Deolali
Shri Ramsroop Haritwal, CEO, Dehu Road	Shri Pramod Kumar Singh, CEO, Khadki

Participating Doctors of Various Cantonments

Dr. Geeta Malu & Dr. Ameet Choradiya (Aurangabad)	Dr. Ranjit C Bhosle (Khadki)
Dr. J. Natesh & Dr. Manish Bathora (Deolali)	Dr. P. Satyashree (Secunderabad)
Dr. Sunita D Joshi & Dr. Kiran Muley (Dehu Road)	Dr. V. D. Gaikwad, Dr. Uday Bhujbal, Dr. Aniket Joshi,
Dr. Krishna Kumar Sahu (Jhansi)	Dr. Arati Lakhande, Dr. Asmit Vaidya,
Dr. Asir Tamboli (Pune)	Dr. Yogesh Asava (Pune)

Link TO JOIN : <https://fsm.webex.com/fsm/j.php?MTID=mb1d1812ef9c68ce79392ab04bbea66fd>

For Further details, please contact:
Harshit Vasani (+91 99530 80823), Amit Jadhao (+91 97550 33783)

@ConclaveFore ForeConclave2020@fsm.ac.in



MAHINDRA MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.)
Corporate Identity Number: U65900MH2013PTC244758
Registered Office: "A" Wing, 4th Floor, Mahindra Towers, Dr. G.M. Bhosale Marg, P.K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai 400 018
Corporate Office: 1st Floor, Sadhana House, 570, PB Marg, Worli, Mumbai - 400 018
Tel: 1800 4196244; website: www.mahindramanulife.com; email id: mfinvestors@mahindra.com

NOTICE - CUM - ADDENDUM NO. 46/2020

THIS NOTICE - CUM - ADDENDUM SETS OUT CHANGES TO BE MADE IN THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF THE SCHEMES OF MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND (FUND)

Change in the Fund Management Responsibilities

Investors/Unitholders are requested to note that pursuant to the appointment of Mr. Manish Lodha, Fund Manager - Equity, in the Investment Team and to introduce Co-Fund Management responsibilities in the equity and hybrid schemes of the Fund, the Fund Management responsibilities of the following schemes of the Fund shall be changed with effect from **December 21, 2020**:

Scheme Name	Existing Fund Manager(s)	New Fund Manager(s)
Mahindra Manulife ELSS Kar Bachat Yojana	Ms. Fatema Pacha	Ms. Fatema Pacha and Mr. Manish Lodha
Mahindra Manulife Multi Cap Badhat Yojana	Ms. Fatema Pacha	Mr. Manish Lodha and Ms. Fatema Pacha
Mahindra Manulife Rural Bharat and Consumption Yojana	Mr. V. Balasubramanian	Mr. V. Balasubramanian and Ms. Fatema Pacha
Mahindra Manulife Equity Savings Dhan Sanchay Yojana	Ms. Fatema Pacha and Mr. Rahul Pal	Ms. Fatema Pacha, Mr. Manish Lodha and Mr. Rahul Pal
Mahindra Manulife Mid Cap Unnati Yojana	Mr. V. Balasubramanian	Mr. V. Balasubramanian and Mr. Manish Lodha
Mahindra Manulife Hybrid Equity Nivesh Yojana	Ms. Fatema Pacha and Mr. Rahul Pal	Ms. Fatema Pacha, Mr. Manish Lodha and Mr. Rahul Pal
Mahindra Manulife Large Cap Pragati Yojana	Mr. V. Balasubramanian	Mr. V. Balasubramanian and Ms. Fatema Pacha
Mahindra Manulife Top 250 Nivesh Yojana	Mr. V. Balasubramanian	Mr. Manish Lodha and Mr. V. Balasubramanian
Mahindra Manulife Arbitrage Yojana	Mr. V. Balasubramanian and Mr. Rahul Pal	Mr. V. Balasubramanian, Mr. Manish Lodha and Mr. Rahul Pal
Mahindra Manulife Focused Equity Yojana	Mr. Krishna Sanghavi	Mr. Krishna Sanghavi and Ms. Fatema Pacha

For details pertaining to age, qualification(s) and brief experience of these fund managers, please refer the SAI of the Fund available at www.mahindramanulife.com. Relevant details shall also be inserted under subsection "H" Who manages the Scheme? under section II. Information about the Scheme in the SID of the above mentioned schemes.

All other terms and conditions of the SID and KIM of the abovementioned scheme(s) of the Fund will remain unchanged.

This notice-cum-addendum shall form an integral part of the SID / KIM of the scheme(s) of the Fund as amended from time to time.

For Mahindra Manulife Investment Management Private Limited
(Formerly known as Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.)

Place: Mumbai
Date: December 18, 2020
Authorized Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पर सेबी बोर्ड का फैसला निवेश फैसले पर मिली सीमित राहत

सचिन मामबटा मुंबई, 18 दिसंबर

ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों के निवेश के फैसलों की निगरानी करने वालों को बुधवार को दी गई छूट के जरिये अतिरिक्त जवाबदेही से कुछ राहत मिली है। लेकिन यह राहत सीमित है और विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी समितियों में सेवा देने से जुड़े कुछ मसले अभी भी बरकरार हैं।

बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को अपनी बोर्ड बैठक में कहा था कि यह ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों की निवेश समितियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इसमें कहा गया था, बोर्ड ने सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) नियमन 2012 के संशोधन को मंजूरी दी ताकि निवेश समिति के सदस्यों को कुछ निश्चित राहत दी जा सके।

खेतान एंड कंपनी के पार्टनर विवेक मिश्रा ने कहा, नियामक शायद यह छूट उठे दे रहा है जो कम से कम 70 करोड़ रुपये निवेश कर रहे हैं क्योंकि यह अपेक्षाकृत ज्यादा प्रगतिशील रहने की संभावना है। इससे ऐसे निवेशकों के साथ वाली फंडों की निवेश समिति को मदद मिलने की उम्मीद है। पर उन फंडों के लिए दायित्व बना रह सकता है जहां कम आवंटन वाले निवेशक हैं। उन्होंने कहा, ज्यादा प्रतिबद्धता स्वीकार करने वाले फंडों के लिए यह कुछ निश्चित सीमा तक स्पष्टता मुहैया कराता है।

जे. सागर एसोसिएट्स के प्रधान सहायक सलिल शाह ने कहा कि इस छूट से पहले निवेश समिति के सदस्य फंड मैनेजर के साथ निवेश के फैसलों पर समान रूप से जिम्मेदार होते थे। उन पर यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही डाली गई कि फंड का निवेश एआईएफ नियमन और अन्य फंड दस्तावेजों के अनुपालन के साथ किया गया है। हालांकि सेबी की बोर्ड बैठक में तय छूट से यह बोझ कम होने की संभावना है जबकि हर निवेशक 70 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करता है और छूट का अनुरोध करता है।

शाह के मुताबिक, फेमा से जुड़े कुछ मसलों का निपटारा होना अभी बाकी है, जिसका

ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड



तक स्पष्टता मुहैया कराता है।

जे. सागर एसोसिएट्स के प्रधान सहायक सलिल शाह ने कहा कि इस छूट से पहले निवेश समिति के सदस्य फंड मैनेजर के साथ निवेश के फैसलों पर समान रूप से जिम्मेदार होते थे। उन पर यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही डाली गई कि फंड का निवेश एआईएफ नियमन और अन्य फंड दस्तावेजों के अनुपालन के साथ किया गया है। हालांकि सेबी की बोर्ड बैठक में तय छूट से यह बोझ कम होने की संभावना है जबकि हर निवेशक 70 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करता है और छूट का अनुरोध करता है।

शाह के मुताबिक, फेमा से जुड़े कुछ मसलों का निपटारा होना अभी बाकी है, जिसका

■ इस छूट से पहले निवेश समिति के सदस्य फंड मैनेजर के साथ निवेश के फैसलों पर समान रूप से जिम्मेदार होते थे

■ फेमा से जुड़े कुछ मसलों का निपटारा होना अभी बाकी है, जिसका असर ऐसी समितियों के कुछ सदस्यों पर पड़ा था

■ सितंबर 2020 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों ने 1.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया

असर ऐसी समितियों के कुछ सदस्यों पर पड़ा था। कुछ प्रवासी समिति में अपने नामों की नियुक्ति कर रहे थे जिसकी वजह से नियंत्रण से जुड़े फेमा के कुछ निश्चित प्रावधानों पर सेबी की नजर गई। सेबी ने आरबीआई और केंद्र सरकार से इस पर राय मांगी और स्पष्टीकरण आने तक फंड निश्चित रूप से जुड़े सभी आवेदन को रोककर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि फेमा के तहत नियंत्रण की परिभाषा का विस्तार कर इस पहलू को सख्त बनाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप निवेश के साथ कीमत के नियम, क्षेत्रीय सीमा और अन्य शर्तें लागू हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अभी इसका समाधान नहीं निकाला गया है।

सेबी की सितंबर में हुई बोर्ड बैठक के मिनटों से पता चलता है कि इससे विदेशी व प्रवासी पर असर पड़ा। इसमें कहा गया है, एआईएफ के वैसे आवेदन पर जहां निवेश समिति को निवेश के फैसले लेने के लिहाज से सशक्त बनाया गया है वहां विदेशी या एनआरआई आवेदन का निपटारा सरकार और आरबीआई से स्पष्टीकरण मिलने के बाद होगा।

सितंबर 2020 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों ने 1.6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। यह एक साल पहले के आंकड़े के मुकाबले एक तिहाई ज्यादा है। इस मामले में कुल प्रतिबद्धता कार लाख करोड़ रुपये के पार निकल गई है।

क्रिस वुड ने सोने में निवेश घटाया, बिटकॉइन पर दांव

पुनीत वाधवा नई दिल्ली, 18 दिसंबर

पिछले कुछ महीनों में बिटकॉइन में आई तेजी ने ट्रेडरों और निवेशकों को क्रिप्टोकॉरसी की ओर आकर्षित किया। पिछले कुछ हफ्तों में आई तेजी को देखते हुए जेफ्रीज के वैश्विक प्रमुख (इंविटी रणनीतिकार) क्रिस्टोफर वुड ने सोने में निवेश घटाया और अमेरिकी डॉलर के चरम वाले पेंशन फंडों के अपने वैश्विक पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को शामिल किया, जिसका गठन केलेंडर वर्ष 2002 की तीसरी तिमाही में हुआ था। क्रिप्टोकॉरसी में गिरावट आने पर उनकी योजना इसमें अपना निवेश बढ़ाने की है।

अपने साप्ताहिक नोट ग्रिड एंड फियर में वुड ने लिखा है, कई सालों में पहली बार पोर्टफोलियो में हाजिर सोने के भारांक 50 फीसदी में 5 फीसदी की कमी लाई जाएगी और इसका निवेश बिटकॉइन में किया जाएगा। 20,000 डॉलर के इतिहासिक स्तर पर करने के बाद अगर बिटकॉइन में मौजूदा स्तर से बढ़ी गिरावट आती है तो हमारा इरादा इस पोजीशन में और जोड़ने का होगा।

मार्च 2020 के निचले स्तर से बिटकॉइन में 474 फीसदी की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है और इस साल अब तक यह 214 फीसदी बढ़ा है। गुरुवार को पहली बार क्रिप्टो 23,000 डॉलर के स्तर के पार निकल



गया और यह एक दिन पहले 20,000 डॉलर के स्तर पर पहुंचा था।

इसका आविष्कार 2008 में हुआ और इसे 2009 में उतारा गया। विभिन्न वर्षों में क्रिप्टो कॉरसी संस्थानों व खुदरा निवेशकों के लिए निवेश का विकल्प बन गया।

क्रिप्टोकॉरसी में निवेश को न तो कानूनी बनाया गया है और न ही इस पर रोक लगाई गई है। साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो भुगतान पर पाबंदी लगाई थी, जिसे मार्च में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। केंद्रीय बैंक ने बाद में स्पष्ट किया कि उसने भारत में क्रिप्टोकॉरसी मसलन बिटकॉइन पर पाबंदी नहीं लगाई है बल्कि विनियमित इकाइयों मसलन बैंकों आदि को इससे जुड़े जोखिम से बचाने की कोशिश की है।

संसेक्स, निफ्टी का फिर नया रिकॉर्ड

भष्मा मुंबई, 18 दिसंबर

विदेशी कोषों की खरीदारी का सिलसिला जारी रहने के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त दर्ज हुई तथा संसेक्स और निफ्टी अपने नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लाभ से बाजार धारणा को बल मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला संसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 47,026.02 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर गया। अंत में संसेक्स 70.35 अंक या 0.15 फीसदी की बढ़त के साथ 46,960.69 अंक पर चढ़ा हुआ, जो इसका नया रिकॉर्ड है।

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19.85 अंक या 0.14 फीसदी की बढ़त के साथ 13,760.55 अंक के अपने नए रिकॉर्ड पर चढ़ा हुआ। एक्सचेंज पीएलसी के उम्मीद से बेहतर नतीजों से आईटी शेयर चमक में रहे। संसेक्स की कंपनियों में इन्फोसिस का शेयर सबसे अधिक 2.64 फीसदी चढ़ गया। बजाज आर्टो, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, टाट्टा, एशियन पेंट्स और टीसीएस के शेयर भी लाभ में रहे।

वहीं दूसरी ओर इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, मारुति, बजाज फिनसर्व और भारती एयरटेल के शेयरों में 3.30 फीसदी तक की गिरावट आई। साप्ताहिक आधार पर संसेक्स 861.68 अंक या 1.86 फीसदी तथा निफ्टी 246.70 अंक या 1.82 फीसदी के लाभ में रहे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की खरीदारी का सिलसिला जारी है।

जुबिलेंट फूडवर्क्स को विविध आधार से दम

राम प्रसाद साहू मुंबई, 18 दिसंबर

त्वरित सेवा रेस्तरां (क्यूएसआर) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर में गुरुवार को 5 फीसदी से अधिक की तेजी आई जिसे बिरयानी श्रेणी में कंपनी की दस्तक के बाद ऊंची वृद्धि की अपेक्षाओं से बंद मिला। चीनी व्यंजन एवं सॉस को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बाद डोमिनोज पिज्जा के इस भारतीय फ्रैंचाइजी का यह तीसरी बड़ी शुरुआत है। नई हल के साथ ही कंपनी की मौजूदगी अब भारतीय खाद्य क्षेत्र की शीर्ष तीन श्रेणियों में सुनिश्चित हो गई है।

हालांकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि कंपनी के पास एक साल के दौरान डोमिनोज में 100 से 125 और हॉमस किचन एवं एकदम! में कुल मिलाकर 30 से 40 रेस्तरां खोलने का टेम्पलेट है। विस्तार को 800 करोड़ रुपये की नकदी एवं दमदार नकदी प्रवाह से रफ्तार मिलेगी।

ब्रोकरेज का कहना है कि पिज्जा कारोबार के दमदार प्रदर्शन के बावजूद अपने फूड मेन्यू में विस्तार की रणनीति सही है। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में तमाम बर्गर ब्रांडों की मौजूदगी के कारण बाजार इस श्रेणी को ओर रुख कर सकता है जिससे पिज्जा श्रेणी पर दबाव बढ़ सकता है।

हालांकि यह (विस्तार) दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सकारात्मक है लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ-साथ अन्य क्यूएसआर कंपनियों के शेयरों में आई तेजी मध्यम अवधि में वृद्धि की संभावनाओं से प्रेरित है। मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए लोगों का रुझान स्थापित ब्रांडों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर की शुरुआत से अब तक इस शेयर में 30 फीसदी से अधिक की वृद्धि हो चुकी है और यह वित्त वर्ष 2022 के आय अनुमान के मुकाबले 66 गुना अधिक भाव पर कारोबार कर रहा है। इसमें निवेश करने से पहले उल्लेखनीय गिरावट का इंतजार करना बेहतर होगा।

पीएमसी बैंक पर 3 महीने और पाबंदी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव (पीएमसी) बैंक पर प्रतिबंधों को 31 मार्च, 2021 तक तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस बीच बैंक ने आरबीआई को सूचित किया है कि उसने जो रुचि पत्र (ईओआई) मांगे थे, उसके जवाब में बैंक को फिर से सक्रिय करने के लिए निवेशकों से चार प्रस्ताव प्राप्त किए हैं।

आरबीआई ने कहा कि इनकी व्यावहारिकता और संभावना के संबंध में जमाकर्ताओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंक को कुछ और वक्त की जरूरत होगी बैंक ने अपने पुनर्गठन के लिए निवेश/इंविटी हिस्सेदारी के वास्ते योग्य निवेशकों से रुचि पत्र मांगा था। यह रुचि पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2020 थी। बैंक के रुचि पत्र वाले दस्तावेज में कहा गया है कि रोजमर्रा के कामों की शुरुआत होने के बाद इसे निवेशकों के लिए खोला जाएगा। बीएस

वृद्धि के लिए मिल रहे तमाम अवसर लेकिन मूल्यांकन निकट भविष्य में वृद्धि एवं सुदृढीकरण पर निर्भर करेगा

के बाद उसका विस्तार करना होगा। यदि सही तरीके से निष्पादित किया गया तो पहले साल के दौरान ही यह राजस्व में उल्लेखनीय योगदान कर सकता है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का मानना है कि कंपनी के पास एक साल के दौरान डोमिनोज में 100 से 125 और हॉमस किचन एवं एकदम! में कुल मिलाकर 30 से 40 रेस्तरां खोलने का टेम्पलेट है।

ब्रोकरेज का कहना है कि पिज्जा कारोबार के दमदार प्रदर्शन के बावजूद अपने फूड मेन्यू में विस्तार की रणनीति सही है। विश्लेषकों का कहना है कि बाजार में तमाम बर्गर ब्रांडों की मौजूदगी के कारण बाजार इस श्रेणी को ओर रुख कर सकता है जिससे पिज्जा श्रेणी पर दबाव बढ़ सकता है।

हालांकि यह (विस्तार) दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सकारात्मक है लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ-साथ अन्य क्यूएसआर कंपनियों के शेयरों में आई तेजी मध्यम अवधि में वृद्धि की संभावनाओं से प्रेरित है। मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए लोगों का रुझान स्थापित ब्रांडों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर की शुरुआत से अब तक इस शेयर में 30 फीसदी से अधिक की वृद्धि हो चुकी है और यह वित्त वर्ष 2022 के आय अनुमान के मुकाबले 66 गुना अधिक भाव पर कारोबार कर रहा है। इसमें निवेश करने से पहले उल्लेखनीय गिरावट का इंतजार करना बेहतर होगा।

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

निविदा सूचना

सिडबी निम्न मर्दों की खरीद हेतु पत्र बोलीदाताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है:

- माइक्रोफॉप ऑफिस 386 क्लाइंट सर्विस सहायता की नवीनीकरण
- डीडीओएस सुखा के साथ समर्पित इन्टरनेट बैंकिंग की खरीद

विरुद्ध निविदा दस्तावेज के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.sidbi.in या eprocure.gov.in/cpp देखें।

परिशिष्ट/शुद्धित, यदि कोई हो, केवल चतुर्दश वेबसाइटों में प्रकाशित किया जाएगा।

प्रपत्र बी सार्वजनिक घोषणा	
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]	
सेबर पेपर्स लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ	
1. कार्पोरेट देनदार का नाम	सेबर पेपर्स लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगम की तिथि	27-12-1996
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चंडीगढ़
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमांत दायित्व पहचान संख्या	U21015PB1996PTC019227
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत और प्रामाणिकृत कार्यालय (पति कोई हो तो) का पता	बीपीओ-जुगियाणा, जी टी रोड, जुगियाणा, पंजाब-141001
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता समाप्त तिथि	15-12-2020
7. कार्पोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन आरंभ तिथि	15-12-2020
8. परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोचेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	नाम: श्री विक्रम बजाज पंजीकरण संख्या: IBB/IFA-002/IP-N00003/2016-2017/10003
9. परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	पंजीकृत पता: 308, तीसरी मंजिल, पर्सनल बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र, पीतापुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल: bjajaj.vikram@gmail.com
10. परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल	दावे भेजने का पता: 308, तीसरी मंजिल, पर्सनल बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र, पीतापुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल: ip.saberpaperboards@gmail.com
11. दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	14-01-2021

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ने 15 दिसंबर 2020 को सेबर पेपर बोर्ड्स लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

सेबर पेपर लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा 14 जनवरी 2021 को या उसके पहले प्रमाण के साथ अपने दावे परिसमापक को ऋण संख्या 10 में उल्लेखित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

विशेष लेखक अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी हितधारक अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, बैंक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जमा कर सकते हैं। दावा जमा आईबीआई की वेबसाइट <https://www.ibbi.gov.in/home/downloads> से जानकारी लिए जा सकते हैं।

प्रपत्र बी सार्वजनिक घोषणा	
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]	
सेबर पेपर्स लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ	
1. कार्पोरेट देनदार का नाम	सेबर पेपर्स लिमिटेड
2. कार्पोरेट देनदार के निगम की तिथि	13-10-2007
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चंडीगढ़
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमांत दायित्व पहचान संख्या	U21012PB2007PLC031416
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत और प्रामाणिकृत कार्यालय (पति कोई हो तो) का पता	बीपीओ-जुगियाणा, जी टी रोड, जुगियाणा, पंजाब-141001
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता समाप्त तिथि	15-12-2020
7. कार्पोरेट देनदार के संबंध में परिसमापन आरंभ तिथि	15-12-2020
8. परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोचेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	नाम: श्री विक्रम बजाज पंजीकरण संख्या: IBB/IFA-002/IP-N00003/2016-2017/10003
9. परिसमापक का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	पंजीकृत पता: 308, तीसरी मंजिल, पर्सनल बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र, पीतापुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल: bjajaj.vikram@gmail.com
10. परिसमापक के लिए पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पते और ईमेल	दावे भेजने का पता: 308, तीसरी मंजिल, पर्सनल बिजनेस पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र, पीतापुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल: ip.themexport@gmail.com
11. दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	14-01-2021

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ ने 15 दिसंबर 2020 को सेबर पेपर लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

KIOCL LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN: L13100KA1976GOI002974

Registered & Corporate Office: II Block, Koramangala, Bengaluru – 560 034, Karnataka, India

Contact Person: Shri Pushp Kant Mishra, Company Secretary & Compliance Officer

Tel: 080-25531461-70 | Fax: 080-25532153-5941 | Email: cs@kioclltd.com | Website: www.kioclltd.in

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF KIOCL LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated October 20, 2020 and published on October 21, 2020 (the "Public Announcement") and the Letter of Offer dated November, 23, 2020 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

- THE BUYBACK**
 - KIOCL Limited (the "Company") had announced the Buyback of not exceeding 1,41,74,469 (One Crore Forty One Lakhs Seventy Four Thousand Four Hundred Sixty Nine) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each ("Equity Shares") from all the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the record date (i.e. Friday, October 30, 2020), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" process at a price of ₹ 110 (Rupees One Hundred Ten Only) per Equity Share payable in cash for an aggregate consideration not exceeding ₹ 155.92 Crore (Rupees One Hundred Fifty Five Crores and Ninety Two Lakhs Only) ("Buyback Offer Size") not exceeding 8.25% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2020 and is within the statutory limits of 10% (Ten Percent) of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves under the Board of Directors approval route as per the provisions of the Companies Act from the equity shareholders of the Company, as on the record date, on a proportionate basis, through the Tender Offer route as prescribed under the Buyback Regulations (hereinafter referred to as the "Buyback"). The maximum number of Equity Shares proposed to be bought back represents 2.28% of the total number of Equity Shares in the issued, subscribed and paid-up equity share capital of the Company.
 - The Company has adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" as provided under Buyback Regulations and circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars").
 - The Buyback Offer opened on Tuesday, December 1, 2020 and closed on Monday, December 14, 2020.
- DETAILS OF BUYBACK**
 - The total number of Equity Shares bought back under the Buyback Offer are 1,41,74,469 (One Crore Forty One Lakhs Seventy Four Thousand Four Hundred Sixty Nine) Equity Shares at a price of ₹ 110 (Rupees One Hundred Ten only) per Equity Share.
 - The total amount utilized in the Buyback of Equity Shares is ₹ 155,91,91,590/- (Rupees One Hundred Fifty Five Crore Ninety One Lakh Ninety One Thousand Five Hundred Ninety Only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the Buyback viz. filing fees, stock exchange fees, advisory fees, public announcement publication expenses, brokerage, applicable taxes such as buyback taxes, securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc.
 - The Registrar to the Buyback Offer i.e. Integrated Registry Management Services Private Limited (the "Registrar to the Buyback Offer") considered 16 valid bids for 1,41,75,361 (One Crore Forty One Lakh Seventy Five Thousand Three Hundred Sixty One) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the subscription of approximately 1 times the maximum number of shares proposed to be bought back. The details of valid bids considered by the Registrar to the Buyback Offer are as follows:

Sr. No.	Particulars	No. of Shares available for Buy Back	No. of Valid Bids	Number of Equity Shares Vaidly Tendered	Number of Equity Shares Accepted	Number of Equity shares un accepted / returned	Response (%)
1	Reserved Category	17,21,626	15	892	892	0	0.006%
2	General Category	1,24,52,843	1	1,41,74,469	1,41,73,577	0	99.94%
	TOTAL	1,41,74,469	16	1,41,75,361	1,41,74,469	0	100.00%

 - All valid bids have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection has been dispatched by the Registrar to respective Eligible Shareholders by Friday, December 18, 2020 (by email where the email id is registered with the Company or the depository).
 - The settlement of all valid bids was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") / BSE Limited on Friday, December 18, 2020. Clearing Corporation has made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction were rejected by Reserve Bank of India/the concerned bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokers / custodians for onward transfer to such Eligible shareholders.
 - Equity Shares accepted under the Buyback have been transferred to the Company's demat escrow account on Friday, December 18, 2020. The unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholders / custodians by the Clearing Corporation / BSE Limited on Friday, December 18, 2020.
 - The extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares accepted under the Buyback in dematerialized form is currently under process and shall be completed by December 28, 2020.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN**
 - The capital structure of the Company, pre and post Buyback Offer is as under:
(Equity Shares have a face value of ₹ 10 each)

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback*	
	No. of Equity Shares	Amount in lakh (₹)	No. of Equity Shares	Amount in lakh (₹)
Authorized share capital	67,50,00,000	67,500.00	67,50,00,000	67,500.00
Issued, subscribed and paid up share capital	62,19,25,565	62,192.56	60,77,51,096	60,775.11

*Subject to extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares
- The details of the Shareholders / beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback Offer are as under:

Sr. No.	Name of Shareholder	Number of equity shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as a % of total equity shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares*
1	President Of India	1,41,73,577	99.99	2.33

*Subject to extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares

- The shareholding pattern of the Company pre-Buyback (as on Record Date i.e. Friday, October 30, 2020) and post Buyback is as under:

Particulars	Pre Buyback		Post Buyback*	
	No. of Equity Shares	% of the existing Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% of the post Buyback Equity Share Capital
Promoters	61,60,51,204	99.06	60,18,77,827	99.03
Foreign Investors (Including Non Resident Indians/ FII's / Foreign Mutual Funds / Resident Nationals)	99731	0.02		
Financial Institutions / Banks and Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	1854232	0.30	58,73,468	0.97
Other (public, public bodies corporate etc.)	39,20,398	0.63		
Total	62,19,25,565	100.00	60,77,51,096	100.00

*Subject to extinguishment of 1,41,74,469 Equity Shares

- MANAGER TO THE BUYBACK OFFER**

